

## रोगी के परिवार के लिए संक्षिप्त सूचना

### क्रैश-3 (CRASH-3) परीक्षण

बड़ी आघातज मस्तिष्क चोट के उपचार के लिए ट्रानएग्ज़ामिक एसिड;  
एक अंतर्राष्ट्रीय बेतरतीबी, दोहरा अज्ञात प्लेसिबो नियंत्रित परीक्षण

आपके संबंधी के सिर में चोट लगी है जिसके लिए तुरंत देखभाल की आवश्यकता है। उसे सिर में चोट के लिए वह सभी सामान्य आपातकालीन देखभाल प्राप्त होगी जो हम इस अस्पताल में देते हैं। इसके साथ-साथ, हम उसे एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में भी शामिल करना चाहेंगे। इस अध्ययन में देखा जाएगा कि क्या ट्रानएग्ज़ामिक एसिड नामक दवा सिर में चोट लगने के बाद सिर के भीतर रक्तस्राव को कम करती है। हमें उम्मीद है कि इस दवा की वजह से रोगी बेहतर तरीके से स्वस्थ होगा। हम जानते हैं कि यह दवा अन्य प्रकार की गंभीर चोट में रक्तस्राव को कम करती है और बिना किसी दुष्प्रभाव के ऐसा करती है, लेकिन अभी तक हमें यह ज्ञात नहीं है कि क्या यह सिर की चोट में काम करती है।

अध्ययन के हिस्से के तौर पर, आपके संबंधी को नस में एक इंजेक्शन दिया जाएगा जिसके बाद आठ घंटों के दौरान ड्रिप लगाई जाएगी। अध्ययन में शामिल आधे रोगियों को ट्रानएग्ज़ामिक एसिड दी जाएगी और आधे रोगियों को एक नकली दवा (एक तरल जिसमें ट्रानएग्ज़ामिक एसिड नहीं होता है) दी जाएगी। अध्ययन की समाप्ति तक हमें मालूम नहीं होगा कि किस व्यक्ति को कौन सा उपचार प्राप्त हुआ है। हमें आपके संबंधी की चिकित्सकीय स्थिति के बारे में कुछ सूचना एकत्र करनी होगी और इसे लंदन में केंद्रीय कार्यालय में भेजना होगा।

यदि आप हमारे अध्ययन के बारे में अभी अधिक जानना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। अन्यथा हम आपको इसके बारे में अधिक सूचना बाद में देंगे। क्या आप चाहते हैं कि हम अध्ययन उपचार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं?

हां, मैं चाहता/चाहती हूँ कि आप प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं।

नाम: \_\_\_\_\_

हस्ताक्षर: \_\_\_\_\_

रोगी से संबंध: \_\_\_\_\_

तिथि: \_\_\_\_\_

(जहाँ आवश्यक है केवल वहाँ ही भरें)